



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 378 राँची, सोमवार, 22 ज्येष्ठ, 1938 (श०)

12 जून, 2017 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

6 जून, 2017

संख्या-01/सा०स्था०-42/2016/न०वि०आ०-3642-- श्रीमती ज्योति वंदना कुजूर, झा०प्र०से० की सेवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को वापस की जाती है ।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राहुल कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।